

## प्रेस नोट

जनपद हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.09.19 को सुमेरपुर पुलिस द्वारा स्वाट/सर्विलांस टीम के सहयोग से सातिर किस्म के अपराधियों की गिरफ्तारी की गयी जो जनपद में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिनके द्वारा दिनांक 08.09.19 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि लक्ष्मी तिराहा हमीरपुर से एक स्कार्पियो कार न० UP95 L 4736 रंग काला में सवारी के रूप में बैठकर मौदहा एवं सुमेरपुर की बीच ड्राइवर को कब्जे में लेकर कुण्डौरा से पौथिया मार्ग पर फेंक कर कार लूट ले गये थे जो उसी समय तुरन्त सूचना फ्लैश कराने पर कदौरा के जंगल में लहरा गाँव के पास डायल 100 के कर्मचारी गण द्वारा चैक व पीछा किया तो उनके ऊपर फायरिंग करते हुये गाडी छोड़कर भाग गये थे जिसके दो अभियुक्त पुराने उर्फ सनी सिंह पुत्र जगत सिंह व धीरू सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह नि० गण कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर से दिनांक 16.09.19 को जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्त गण रवि पुत्र दासी उम्र 21 वर्ष नि० वार्ड न० 1 कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर 2. रवि उर्फ प्रधान पुत्र रामआसरे उम्र 20 वर्ष नि० वार्ड न० 1 कस्बा व थाना कुरारा जनपद हमीरपुर।

### आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 324/19 धारा 394 भादवि० बनाम रवि आदि
2. मु०अ०सं० 338/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रवि पुत्र दासी
3. मु०अ०सं० 339/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रवि पुत्र रामआसरे
4. मु०अ०सं० 340/19 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि० बनाम रवि आदि।

### बरामदगी:-

1. मो०साइकिल पैशन न० UP91 I 3181 वास्तविक न० UP91 H 3181
2. दो अदद तमंचा 315 बोर मय चार अदद कारतूस जिन्दा

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री सतीश कुमार यादव
2. उ०नि० श्री शिवदान सिंह
3. उ०नि० श्री रोहित कुमार
4. उ०नि० श्री अजब सिंह

5. का0 धर्मेन्द्र कुमार

थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर।

सहयोगी स्वाट एवं सर्विलाशं टीम:-

1. निरी0 श्री के0के0 पाण्डेय

2. HC शिवप्रताप सिंह चौहान

3. का0 रजत सिंह

4. का0 अरविन्द कुमार

5. का0 अनिल कुमार



## एंटीरोमियों चेकिंग/जागरूकता अभियान

आज दिनांक 28/09/2019 को थाना जलालपुर/महिला थाना/राठ/जरिया थाना पुलिस की एंटीरोमियों टीमों द्वारा अपने-02 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोचिंग सेंटर/बाजार/पूजा स्थल/बैंको/ /बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानों में एंटीरोमियों चेकिंग की गई चेकिंग के दौरान बिना वजह घूमने वाले आवारा टाइप 81 लड़कों को चेक किया गया व 27 लड़कों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया साथ ही एंटीरोमियो टीमों द्वारा अपने-02 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों में छात्राओं से उनकी सुरक्षा के सम्बंध वार्ता की गई व यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित एप्लिकेशन/100 नंबर/वूमेन पावर हेल्प लाइन 1090 यूपी कॉप/पुलिस सोशल मीडिया के बारे में बताकर जागरूक किया गया साथ ही अपने थाने का विज़िटिंग कार्ड दिया एवं अवगत कराया आप किसी भी समय पुलिस को सूचित कर सकती हैं आपकी पहचान को भी सार्वजनिक नहीं किया जायेगा।



## वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मौदहा पुलिस द्वारा सम्बन्धित मु०अ०सं० 386/19 धारा 354 भादवि० व 10 पोक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त बच्चा उर्फ जमील अहमद पुत्र मंसूर निवासी मु० हैदरगंज कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को गिरफ्तार किया गया।